



दिनांक- 02.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति” अभियान के तहत स्कूली छात्राओं/छात्रों को सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति किया जागरूक...।

उ0प्र0 शासन व उ0प्र0 पुलिस के द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरूक किये जाने हेतु चलाये जा रहे महाभियान *मिशनशक्ति* के तहत आज दिनांक 02.03.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे **“मिशन शक्ति”** महाभियान कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम के साथ विनसाष्ट बी.एड. कालेज, पनवाडी-महोबा में कालेज प्राचार्य श्री प्रेम नारायण अनुरागी जी की मौजूदगी में मिशनशक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपस्थित कालेज की छात्राओं को नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन व नारी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें हेल्पलाइन नम्बरों- वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प लाइन-181, आपातकाल सेवा-112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108 एवं सभी को जनपद के प्रमुख अधिकारियों के सीयूजी नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें साइबर अपराध एवं महिला कानूनो की भी जानकारी दी गई। साथ ही टीम द्वारा उपस्थित सभी को मिशन शक्ति जागरूकता हेतु पम्पलेट्स भी वितरित किये गये।

साथ ही टीम द्वारा मौजूद छात्रों को लड़कियों पर छीटाकशी/छेड़खानी करने व महिला सम्बन्धी अपराध करने से बचने की सलाह दी गई। उन्हें बताया गया कि कानून सभी के लिए बराबर है। बाल अपराध के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी होने पर तुरन्त चाइन्ड केयर नं0 1098 पर फोन कर सकते हैं।





दिनांक- 02.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग

गस्त के दौरान दुकानदारों से वार्ता कर सुरक्षा सम्बन्धी विषयों पर चर्चा की गई। सभी से सीसीटीवी कैमरा लगवाने की अपील की गई। साथ ही ढाबा/होटल/शराब की दुकान आदि जगहों पर अराजक तत्वों की चेकिंग व पूछताछ की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन पर **05 वाहनो से 500/-रु0 शमन-शुल्क व 37 ई-चालान** किया गया।



आज दिनांक 02.03.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम के कुशल निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की गई। मुख्य बाजारों में पैदल



दिनांक- 02.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा 'गुड मॉर्निंग महोबा' अभियान के तहत पुलिस/नागरिकों के बीच "पुलिस मित्र" के रूप में बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने की अनोखी पहल है। गुड मॉर्निंग टीमों क्षेत्र में भ्रमण के दौरान छात्र/छात्राओं से मॉर्निंग वाक के दौरान उनकी पढ़ाई/परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी वार्ता की गई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया।

दिनांक 02.03.2021



सोशल मीडिया सेल